

PROFORMA FOR SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

No.

Dated:

It is certified that an inspection team headed by **Dr. K.P. Singh (Incharge of CHC)**

(Name of Officers with designation) from **CHC Chandpur**.....PHED

inspected the **Diamond Public School, Mehmoodpur Chandpur (Bijnor)**

(Name & Address of the school) on **15-01-2025**.....(date of inspection) and on the basis of

Water Test Report (Attached) bearing no. **2795/Water Test/132**..... dated **28-02-2025**

of **Office of The Executor Engineer, Bijnor** (PHED Lab) certified that


the **Diamond Public School, Chandpur (Bijnor)** (Name of school) has safe drinking water

facilities for the students and members of staff of the institution. School is also maintains the

hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per norms prescribed by the

Central/ State/ U.T. Govt.

This certificate is valid till **One Year**.....

Signature with Seal: 

Name : **Dr. K.P. Singh**

Designation : **Incharge CHC, Chandpur**

Name & Address of the Office / Department : **Siau, Bijnor**

Medical Officer
C. H. C. SIAL'
Distt. Bijnor

To **Diamond Public School**
Village Mehmoodpur, Chandpur (Bijnor)
(Name & Address of the Institution)

Note: The certificate is to be issued by authorized officer / PHED Lab / local bodies

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
लडापुरा जलकल प्रांगण, झालू रोड, बिजनौर
(जल परीक्षण रिपोर्ट)

सेवा में:-

प्रबन्धक-डायमण्ड पब्लिक स्कूल
महमूदपुर कस्बा चाँदपुर बिजनौर

ज़िला-बिजनौर

दिनांक:- 25/02/2025

प्रयोगशाला पंजिका का सन्दर्भ:.....


आपके पत्रांक 2795/जल परीक्षण 1/32


दिनांक 28-02-2025 के सन्दर्भ में आख्या सख्या भेजी जा रही है।


क्र०सं०	ग्राम/नगर/लोकेशन	स्रोत	टी०डी०एस० (पी०पी०एम०)	पी०एच०	रसायनिक परीक्षण पी०पी०एम० में							
					क्लोराइड	फ्लोराइड	सम्पूर्ण कठोरता	सल्फेट	आयरन	नाइट्रेट	एल्केनिटी	टिप्पणी
1	डायमण्ड पब्लिक स्कूल महमूदपुर कस्बा चाँदपुर	सबमर्सिबल	215	6.9	35	0.1	300	9.6	0.1	2.2	90	सन्तोषजनक

नोट- 1 सी०पी०एच०ई०ओ० के मानक में उल्लिखित सीमा से अधिक को रेखांकित किया गया है।

2 आयरन विश्लेषण हेतु नमूने एसिडिक में भेजे।


कैमिस्ट


जूनियर इंजी०


सहायक अभियन्ता

Physical & Chemical Standard

No.	CHARACTERISTICS	ACCEPTABLE	CAUSE FOR REJECTION
1	Colour (unit on platinum-Cobalt Scale)	5.0	25
2	Taste and Odour	Unobjectionable	Objectionable
3	Ph	7.0 to 8.5	<6.5 or >9.2
4	Total dissolved solids	500	1500
5	Total Hardness (as CaCo ₃)	200	600
6	Chlorides (as CL)	200	1000
7	Sulphate (as So)	200	400
8	Fluorides (as F)	1.0	1.5
9	Nitrates (as No ₃)	45	>45
10	Iron (as Fe ₃)	0.1	1.0
11	Nitrate	.	.
12	Alkalinity	200	600
13	Residual Chlorine	.	.
14	Anionic	.	.
15	Turbidity	.	.
16	Chromium Bacteria	.	.

Instruction & guide lens for water sample collection

RESEARCH LABORATORY

U.P. JAL NIGAM BIJNOR

PARTICULARS FOR CHEMICAL ANALYSIS OF WATER SAMPLE

Name of Office.....

Reference letter

Name & Designation of Sample Collector.....

Date of Sample Collection

Name of Village/Town.....

Code no.....

Block.....

Tehsil

District.....

Source.....

Location of source.....

Deep of water level

Remarks if any.....

Signature of sample Collector

Note-1- The Performa be filled up with ball point pen & accompanied with appropriate sample.

2- Separate Performa shall be filled for each sample.

3- Each sample should be collected in to latter white plastic container.

4- For villages affected with metals like excess IRON impurity in drinking water. The bottle containing 2% of concentrated nitric acid or Hydrochloric acid AR should be collected from the JalNigamLaboratoryBijnor for taking sample in it.

Physical & Chemical Standard